

PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ALPHA PEFIC ENGINEERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of corporate debtor	ALPHA PEFIC ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	25/11/2003
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Delhi
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U74900DL2003PTC123228
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	F-69/1, Street No-4, Subhash Vihar North Ghonda, North East, New Delhi- 110053
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	07.01.2022 (Last order of Hon'ble NCLT was passed on 30.08.2024)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	26.02.2025 (Being 180 days from the last order of Hon'ble NCLT dated 30.08.2024)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Atul Jagrani IBBI/IPA-001/IP-P-01117/2019-2020/12508
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	30 Harsh Vihar, Pitampura, Delhi, North West, National Capital Territory of Delhi- 110034 Email: atuljagrani@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	405, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi, 110001 Email: alphapeficengineersprivateltd@gmail.com
11. Last date for submission of claims	13.09.2024 (Being 14 days from date of last order of Hon'ble NCLT dated 30.08.2024)
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable as per information available with IRP
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable as per information available with IRP
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at entry no.	Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (Court III) has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of M/s. Alpha Pefic Engineers Private Limited on 07.01.2022. Last order of Hon'ble NCLT was passed on 30.08.2024. The creditors of M/s. Alpha Pefic Engineers Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13.09.2024 to interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by soft or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Mr. Atul Jagrani
Interim Resolution Professional
ALPHA PEFIC ENGINEERS PRIVATE LIMITED
IBBI/IPA-001/IP-P-01117/2019-2020/12508
Place: New Delhi
Date: 06-09-2024
AFA Valid Upto: 02.01.2025

TARANGINI INVESTMENTS LIMITED
Regd. Office: K-37/A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony Metro Station, New Delhi-110048
CIN: L67190DL1982PLC013486, Ph: 011-42657135
Website: www.taranginiinvestmentsltd.com; Email Id: tarangini023@gmail.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the company will be held on Monday, September 30th, 2024 at 03.00 PM, at K-37/A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony Metro Station, New Delhi-110048.

Physical copies of the Notice of Meeting including the Attendance Slip and the Proxy Form setting out the ordinary businesses and Special Business to be transacted at the Meeting together with the Balance sheet as at 31st March, 2024, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the Year ended on that date including the schedules thereto and reports of the Board of Directors, Auditors thereon has been sent to the members who have not registered their email id with the company / company's Registrar and Transfer Agent to their respective registered address by post, and electronically to those members who have registered their email address.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available at company's website (www.taranginiinvestmentsltd.com) and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (Monday to Friday), during business hours up to the date of the Meeting.

A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the registered office of the company not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Annual General Meeting ("Meeting") scheduled to be held on Monday, September 30th, 2024 at 03.00 PM, at K-37/A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony Metro Station, New Delhi-110048 through remote e-voting apart from the usual mode of voting at the Meeting through ballot papers. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of Notice convening the Meeting, Attendance Slip and Proxy Form have been dispatched / emailed, as the case may be, to all the Members. This communication and the Notice of the Meeting are available on the website of the Company at www.taranginiinvestmentsltd.com and on the website of NSDL at www.nsdl.co.in.

This remote e-voting facility shall commence on September 27th, 2024 from 9.00 a.m. (IST) and ends on September 29th, 2024 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting mode shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

A person whose name appears in the register of Members / Beneficial owners as on Cut-off date i.e. September 23rd, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the Cut-off date i.e. September 23rd, 2024, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and Password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website.

The Members who have cast their votes by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any Member, who is entitled to vote but has not exercised his/her right to vote by Remote e-voting, may vote at the Meeting through physical ballot at all businesses specified in the Notice. Ballot papers will be provided to the Members at the venue of the Meeting to cast their votes.

By Order of the Board
For Tarangini Investments Limited
Sd/-
(Pankaj Khetan)
Director
DIN: 01567415

Date : 05th September, 2024
Place : New Delhi

RAJASTHAN CYLINDERS AND CONTAINERS LTD
Regd. Office: SP - 825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur -302013.
Tel: 91-141-4031112; E: info@rajgroup.in;
W: www.rajgroup.in; CIN: L25101RJ1980PT002140

NOTICE OF 44TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Rajasthan Cylinders and Containers Limited will be held on Friday, 27th September, 2024 at 02.00 P.M. at its registered office situated at SP-825, Road No. 14, VKI Area, Jaipur-302013 (Rajasthan) to transact the business as set out in the notice of 44th AGM.

The Company has completed electronic dispatch of the Notice of the 44th Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2023-24 on Thursday 05th September, 2024 to all the members of the company, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) / Depository Participant(s) in compliance with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs of India (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CID/POD/P/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

The Notice of the 44th AGM, Annual Report for the financial year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website i.e. www.rajgroup.in, website of CDSL www.evotingindia.com and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and the provisions of Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of 44th AGM electronically using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility.

The Board of Directors has appointed Mr. Varun Mehra, Company Secretary in practice (Membership No. F11599, CP No. 19212) and Partner at MSV & Associates as Scrutinizer to scrutinize voting process in a fair and transparent manner.

In this regard, the Members are further informed that:

- The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
- The remote e-voting period shall start at 09.00 A.M. on Tuesday, 24th September, 2024 and shall end at 05.00 P.M. on Thursday, 26th September, 2024. The remote e-voting mode will be disabled by CDSL for voting and shall not be allowed beyond the prescribed date and time mentioned above.
- The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.
- A person whose name is recorded in the register of Members/ Beneficial Owners maintained by the depositories/ RTA as on cut-off date i.e. 20th September, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting by ballot at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the AGM.
- Any person who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. 20th September, 2024.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The member who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through remote e-voting, may vote during AGM.
- In case of queries pertaining to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futures, Marfatil Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Park (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-230584243.

For Rajasthan Cylinders and Containers Ltd
Sd/-
Neha Dasgupta (Company Secretary)
ICSI No. No. A55093

Place: Jaipur
Date: 06.09.2024

BEEKAY NIRYAT LIMITED
111, Signature Tower, DC-2 Lal Kothi Scheme, Tank Road, Jaipur-302015
Ph: 0141-4006454/516 • Website: www.beekayniryat.com
CIN: L67120RJ1975PLC045573

NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

NOTICE IS HEREBY given that 49th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Beekay Niryat Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 11:30 A.M. (IST) at its registered office situated at 111, Signature Tower, DC-2 Lal Kothi Scheme, Tank Road, Jaipur -302015(Raj.) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated Friday, August 30, 2024 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and as per General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and earlier circulars issued in this regard from time to time by Ministry of Corporate Affairs, (collectively referred to as "MCA Circulars"), and Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/POD/P/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "SEBI Circulars") with the physical presence of the Members at Registered Office of the Company.

The electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company (Depository Participant). The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed in accordance with the aforementioned MCA Circulars and SEBI Circulars.

Pursuant to Section 91 of the Act and regulation 42 of Listing Regulations, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 49th AGM of the Company to be held on Thursday, September 26, 2024 at the registered office of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility during AGM to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means.

In this regard, the Members are hereby further informed that:

- The remote e-voting period shall start at 09:00 A.M. (IST) on Monday, September 23, 2024 and shall end at 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, September 25, 2024. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, September 25, 2024. The same will be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 19, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, September 19, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- The Members who have not casted their votes electronically can exercise their voting rights at the AGM through ballot paper.
- Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be able to vote at the AGM.
- Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store; iPhone and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- The Notice of AGM and the Annual report for the financial year 2023-24 is available on the Company's website www.beekayniryat.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact them at 1800 202 5533.

For Beekay Niryat Limited
Sd/-
VERSHA GOYAL
(COMPANY SECRETARY)

Place: Jaipur
Date: SEPTEMBER 05, 2024

E-Auction Notice for Advertisements Toilets & AC Waiting Hall at Kharagpur

E-Auction Notice No. : KGP/Al Hall/24/6, Dtd. : 04.09.2024. S Manager, Kharagpur Division, Sr on behalf of the President, Union

1. Display of commercial adverts at odd nos. of 12-Car EMU Local side walls, barring windows and ma Display of commercial adverts New Foot Over Bridge of Pansk Station. Display of commercial a area of Ghatsila Station and ShaI areas. Display of commercial a of Vinyl sticker at the Mirror and f coaches of Train No. 12021/12022. Express. Auction Date : 18.09.20 Auction Catalogue No.: ADVT-H

2. Operation and maintenance side circulating area at Kharagpur Bridge). Operation and mainten south side circulating area at Kha Over Bridge). Up-gradation, ma AC Waiting Hall at New Building/ Auction Date : 10.09.2024 at 10 Auction Catalogue No.: PnU-KGP-WRL-

3. Operation and maintenance & Use Toilet at circulating area of B Build, Operate and Transfer (BOT maintenance and manning of / station. Auction Date : 11.09.202 Auction Catalogue No.: PNU-KGI in the <https://www.ireps.gov.in/>

Interested parties and contractor through the website as mentioned information about the e-Auction not if any, please contact the office of Place : Kharagpur Sr. Divisi Date : 04.09.2024

South East
We serve

INTEGRA ESSEN
CIN: L74110DL200
Registered Office: Unit No. 607, 6th Floor, Poo Pitampura, New Delhi

Contact Details: Pankaj Kumar Sharma (Co Website: www.integrassentials.com E-mail id: c

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting of Integra Essentia Limited will be held on Friday through Video Conferencing/ Other Audio Conferencing with the provisions of the Company Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 December 8, 2021, and General Circular No. 3/2022 dated December 26, 2022 Corporate Affairs (collectively referred to as "HO/CFD/CID/POD/CIR/P/2020/79 dated May CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/POD issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the businesses as set out in the said Circulars, the Company has the Annual Report for the Financial Year 202 through electronic mode to all the members / Company/Depository participant(s). These documents are available on the Company's website at www.integrassentials.com Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility during AGM to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means.

In this regard, the members are hereby further informed that:

- The cut-off date for determining the eligible general meeting is September 20, 2024.
- The remote e-voting period will commence 09:00 A.M. and ends on Thursday, Septem E-voting shall not be allowed beyond the at
- The persons who have acquired shares after the dispatch of notice may obtain the l
- A person whose name is recorded in the l beneficial owners maintained by the de-positary entitled to avail the facility of remote e-voting.
- Members who have cast their votes by an attend/participate in the AGM through VCR cast their votes again at the AGM.
- The manner of registration of email add addresses are not registered with the Co Notice.
- The details of Scrutinizer and procedure for AGM Notice.

If you have any queries or issues regarding the System, or facing any technical issue in login b helpdesk by sending a request at helpdesk.esg@integrassentials.com 1800 21 09911

Date: September 05, 2024
Place: New Delhi

फ्रंट बढ़ने के
में भी तेज
आकार की एक
टल्स और
टमें बताया
न के होटल
यह आंकड़ा
न है। इसमें
इत देखने को

44 प्रतिशत
ने किया गया
30 प्रतिशत
और प्राइवेट
है। रिपोर्ट में
सकारात्मक



रुझान बरकरार रह सकता है। कुल हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट मार्केट में मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई की हिस्सेदारी 78 प्रतिशत होने का अनुमान है। बाकी

के 22 प्रतिशत का योगदान टीयर 2 और 3 शहरों से आएगा। जेएलएल की ओर से बताया गया कि 2024

लेनदेन में अहम भूमिका निभाई है। इसमें मुंबई में एक होटल और गोवा में प्रीमियम होटल की जमीन बिकी शामिल है।

जेएलएल इंडिया के होटल और हॉस्पिटैलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ऑपरेशनल संपत्तियों और जमीनों की बिक्री में निवेशकों का बढ़ता हुआ रुझान निवेश परिदृश्य के आकर्षण को दर्शाती है।

यह बढ़ते हुए कर्माश्रियल मार्केट, बढ़ती एयर कनेक्टिविटी और अच्छी व्यापक आर्थिक स्थिति को दिखाती है। इस महीने की शुरुआत में एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के चलते इस साल की पहली छमाही में उच्च स्तर और प्रीमियम सेगमेंट में 2,706 नए कमरे जोड़े गए थे। इनमें से 994 कमरे (37 प्रतिशत) उच्च स्तर के जबकि शेष (63 प्रतिशत) में प्रीमियम सेगमेंट के थे।

और पर्सनल केयर मार्केट काबले बढ़ेगा तेजी से


से 5 प्रतिशत), अमेरिका (2 से 4 प्रतिशत), जापान (2 से 3 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया 2 से 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार को वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका ई-कॉमर्स मार्केट की होने वाली है। यह 25 प्रतिशत के सीएजीआर की दर से बढ़ सकता है। इसके अलावा ग्राहकों की आय बढ़ने के कारण लोग प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अधिक खर्च करेंगे। 2028 तक प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार 3 से 3.2 अरब डॉलर तक का हो सकता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर सोशल मीडिया भी आने वाले समय में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि 2023 में 52 से 53 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि असंगठित रूप से ऑफलाइन होने वाले कारोबार में आने वाले वर्षों में कमी देखने को मिलेगी। कुल ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट में इनकी हिस्सेदारी 2028 में गिरकर 35 प्रतिशत रह जाएगी, जो कि 2023 में 55 प्रतिशत थी।

बढ़ रही है महंगे स्मार्टफोन की सेल्स

नई दिल्ली@एजेंसी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रीमियममाइजेशन की प्रवृत्ति के बीच खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ, हाल की तिमाहियों में देश में लक्जरी स्मार्टफोन की बिक्री में वृद्धि हुई है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, एक लाख रुपये और उससे ऊपर के स्मार्टफोन की शिपमेंट में साल-दर-साल आधार पर मौजूदा कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में 20 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल की पहली छमाही में एक लाख रुपये और उससे ऊपर के सेगमेंट की बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से कुछ अधिक रही। काउंटरपॉइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक ने कहा कि दूसरी छमाही में सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल्स और नए एप्पल आईफोन सीरीज के आगमन के साथ इस हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि 2021 में देश में लक्जरी या सुपर-प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री 14 प्रतिशत बढ़ी थी। अगले साल 2022 में इसमें 96 प्रतिशत और 2023 में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साल 2023 में सैमसंग ने सुपर-प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जबकि एप्पल की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत रही। साइबर मीडिया रिसर्च (सीएमआर) के उपाध्यक्ष-इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप के अनुसार, भारतीय स्मार्टफोन बाजार में प्रीमियमाइजेशन

की लहर लगातार मजबूत हो रही है। उपभोक्ता अब उन स्मार्टफोन डिवाइसेज को प्राथमिकता दे रहे हैं जो न केवल बेहतर विशेषताएं और फीचर्स प्रदान करते हैं, बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। उनके अनुसार, पहली छमाही में एक लाख रुपये और उससे ऊपर के ऊपर-प्रीमियम स्मार्टफोन ने देश में सालाना आधार पर 80 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। अप्रैल-जून तिमाही में, सैमसंग ने मूल्य के हिसाब से 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार में प्रमुखता हासिल की, इसके बाद विवो और एप्पल का स्थान है। हालांकि, हाल ही में आईफोन की पूरी रेंज में कौमत्तों में कटौती के चलते एप्पल के अगली तिमाही में फिर से उबरने की उम्मीद है। इस साल की दूसरी तिमाही में, भारत में 5जी स्मार्टफोन की बाजार हिस्सेदारी रिकॉर्ड 77 प्रतिशत रही, जिसका मुख्य कारण उनका घटता औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) है।

में जेनेरेटिव AI को किया लागू



रिपोर्ट से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 85 प्रतिशत भारतीय सीएक्सओ का मानना है कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहल मानव संसाधन रणनीतियों को आगे बढ़ाने और संगठनात्मक संस्कृति को व्यापक सामाजिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में आवश्यक या बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 66 प्रतिशत सहमत हैं कि गत एक-दो वर्षों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण हो गई है और वैश्विक और राष्ट्रीय ईएसजी रिपोर्टिंग मानकों के अनुकूल हो रही है।

फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि व्यावसायिक परिदृश्य अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, जो तकनीकी प्रगति, कार्यबल की गतिशीलता में बदलाव और स्थिरता की अनिवार्यता से प्रेरित है। इससे मानव संसाधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों भी कर्मचारी कल्याण का समर्थन करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रही हैं। इसमें 79 प्रतिशत पेशेवर विकास के अवसर प्रदान कर रही हैं और 60 प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान कर रही हैं।

तार विकास और कुछ नया करके, भारतीय नियंत्रण भविष्य के उद्देश्य-संचालित और अभिनव स्थितियों की नींव रख रही हैं। इसके अलावा,

राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय-एसपी-825, रोड नं. 14, वीकेआर एरिया, जयपुर-302013,
फोन: 81-141-4031771-2; E: info@bajajgroup.in;
W: www.bajajgroup.in; CIN No: L28101RJ1980PLC002140

44वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक का विवरण, बुक कलेज एंड डिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एलएड द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड के सदस्यों की 44वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) की बैठक बुधवार, 27 सितम्बर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एसपी-825, रोड नं. 14, वीकेआर एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान) 44वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के लिए आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने मुख्यालय 05 सितम्बर, 2024 को विचार वर्ष 2023-24 को लिए 44वीं वार्षिक आभार बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण कंपनी के सभी सदस्यों को पूरा कर लिया है, जिसके ई-सेल बॉक्स कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रैडिंग एंजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं, जो कि भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के विभाग (एसईए) द्वारा जारी 25 सितम्बर, 2023 के संसाधन परिचय संख्या 09/2023 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी 07 अक्टूबर, 2023 के परिचय Circular SEBI/SEBI/HO/CFD/CFO-POD-2/P/CIIR/2023/167 को अनुपालन में है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 44वीं एजीएम वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध है और इसे कंपनी की वेबसाइट यानी www.bajajgroup.in, सीडीएलएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के तहत एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से (सूचीबद्ध ट्रांसैक्शन एवं वोटों का आकस्मिकता) नियम 2015 के विनियमन 44 के अनुक्रम में कंपनी को और से प्रस्तावों को पारित करने के लिए सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है। जो सदस्य वोटिंग स्थल से बाहर है, वे रिमोट ई-मतदान के जरिये इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करते हुए मत डाल सकते हैं। ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने सीडीएलएल की अधिकृत एजेंसी के रूप में सुविधित किया है।

निदेशक प्रणाली में श्री वरुण मेहरा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफ11599, सीपी नं. 19212) और संप्रदायी एंड एग्जिक्यूटिव्स को चार्टर को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए कर्तव्यभार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस बारे में सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

ए) कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रैडिंग एंजेंट एजीएम के उद्देश्य से रजिस्ट्रार, 21 सितम्बर, 2024 से शुरू कर, 27 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिनों सम्मिलित) बंद रहेगी।

बी) रिमोट ई-मतदान अवधि सितम्बर 24 सितम्बर, 2024 को सुबह 9.00 बजे प्रारंभ होगी और सुबह 26 सितम्बर, 2024 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-मतदान याच्य नहीं होगी। रिमोट ई-मतदान मांड्यूल को सीडीएलएल द्वारा मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऊपर उल्लिखित दिनांक व समय के बाद इसकी अनुमति नहीं होगी।

सी) मतपत्र को माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-मतदान से अपने मत नहीं डाले हैं, वे एजीएम में अपना मत डाल सकते हैं।

डी) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार में या कट ऑफ तिथि 20 सितम्बर, 2024 तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए पत्रकारियों मालिकों के रजिस्ट्रार में दर्ज किया गया है, केवल वे सदस्य ही रिमोट ई-मतदान या एजीएम से वोट से मतदान की सुविधा के इस्तेमाल करेंगे। रिमोट ई-मतदान की विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में निहित है।

ई) सर्वेक्षण को कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितम्बर, 2024 तक शेयर रखा है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीएमआर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएलएल के पास पंजीकृत है तो चोट डालने के लिए मौजूदा पूरा आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितम्बर, 2024 को कंपनी की भुगतान की गई डिपॉजिटरी शेयर पुंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

एफ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जो सदस्य वोट देने के इच्छाकार हैं, लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान वोट कर सकते हैं।

जी) दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से, सदस्य सहायता अनुभाग को अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एएसक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या श्री राकेश दुलवी, संचालन मैनेजर, (सीडीएलएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, एच.एम. 25वीं मंजिल, मेराधन पब्लिकएक्स, महालक्ष्मी मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोखार पुर (पूर्व), मुंबई - 400013 को भी भेज सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल या फोन 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

यह राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड द्वारा
हस्ता./-
नंदा दुसदर (कंपनी सचिव)
ICSI M. No.: A55093

स्थान: जयपुर
दिनांक: 05.09.2024